



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2013/माघ 8, 1934

No. 13]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2013/MAGHA 8, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2013

सं. 07/2013-(एन.टी.)

फा. सं. 394/121/2012-सीमा-शुल्क (एएस) खंड-II.—

राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2013 के अवसर पर सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी को "सेवा का विशेष रूप से प्रतिष्ठित रिकार्ड" के लिए प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

आयुक्त :

1. श्री अतुल दीक्षित, अपर महानिदेशक, प्रणाली निदेशालय, नई दिल्ली

अपर आयुक्त/अपर निदेशक/संयुक्त आयुक्त/संयुक्त निदेशक:

2. श्री मनमैम रघु रामी रेड्डी, अपर आयुक्त, सेवाकर आयुक्तालय-1, मुम्बई ।
3. श्री गणेश दत्त लोहानी, निदेशक, विधायी स्कंध, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली ।
4. श्री सुनील कुमार सिन्हा, निदेशक, न्यायिक एवं समीक्षा स्कंध, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क, नई दिल्ली ।
5. श्री राजेश कुमार मिश्रा, अपर आयुक्त, उत्पाद शुल्क का आयुक्तालय, जयपुर-1, जयपुर ।

6. सुश्री लिमातुला यादेन, अपर आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ।

उपनिदेशक/उपायुक्त/सहायक निदेशक/सहायक आयुक्त

7. श्री राजेश कुमार अग्रवाल, उपायुक्त, प्रतिअदायगी स्कंध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्यरत ।
  8. श्री विनोद कुमार अग्रवाल, उपायुक्त प्रतिअदायगी स्कंध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्यरत ।
  9. श्री अश्विनी कुमार महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुम्बई जोनल यूनिट, मुम्बई ।
  10. श्री जगत सिंह टोंक, उपायुक्त, सीमा-शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, नई दिल्ली ।
  11. श्री जसवंत कुमार हिगिंग्स, सहायक आयुक्त, इलैंड कंटेनर डिपो, लोनी, सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय, गाजियाबाद, मेरठ जोन ।
- अप्रेजर/अधीक्षक/वरिष्ठ आसूचना अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी :
12. श्री नर्मदेश्वर आजाद, अधीक्षक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नारकोटिक्स अकादमी (नासेन), नई दिल्ली ।
  13. श्री सोमनाथ चौधरी, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद जोनल यूनिट, अहमदाबाद ।

14. श्री दिवाकर श्रीकृष्ण मेहता, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुम्बई जोनल यूनिट, मुम्बई ।
15. श्री अनिल कुमार सिन्हा, अधीक्षक, प्रणाली महानिदेशालय, नई दिल्ली ।
16. श्री ए. जेबस्तिन, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय, चैन्नई जोनल (यूनिट चैन्नई)
17. श्री सत्य बीर सिंह, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (मुख्यालय), नई दिल्ली ।
18. श्री आशुतोष निवसरकर, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, इंदौर ।
19. श्री राकेश गुप्ता, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, दिल्ली जोनल यूनिट, नई दिल्ली ।
20. श्री पवन कुमार, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, दिल्ली जोनल यूनिट, नई दिल्ली ।
21. श्री पी. मुरलीधरन, अधीक्षक, बृहत करदाता यूनिट, बेंगलूरु ।
22. श्री के. एस. एस. जनार्दन राव, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, क्षेत्रीय यूनिट, हैदराबाद ।
23. श्री सरवन सिंह, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (मुख्यालय), नई दिल्ली ।
24. श्री टॉसी छिरिड् वांग्डी, अधीक्षक (ओ.पी.एस.), संभारतंत्र निदेशालय, तस्कर रोधी यूनिट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली में कार्यरत ।
29. श्री इन्द्रजीत सिंह साहनी, आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय (मुख्यालय), नई दिल्ली ।
30. श्री संदीप दास, आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय, कोलकाता जोनल यूनिट, कोलकाता ।
31. श्री एस. वरदराजन, आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुम्बई जोनल यूनिट, मुम्बई ।
32. श्री विनोद कुमार शर्मा, आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, दिल्ली जोनल यूनिट, नई दिल्ली ।
33. श्री एम. एन. त्यागराज, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय, बेंगलूरु जोनल कार्यालय, बेंगलूरु ।
34. श्री अजित कुमार कार्तिकेयन, आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, क्षेत्रीय यूनिट, पुणे ।
35. श्री पुरुषोत्तम दास लालवानी, उप कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर-1, जयपुर ।
36. श्री अजय कुमार के. पी., आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, क्षेत्रीय, यूनिट कोची ।

डाइवर :

37. श्री विरेन्द्र सिंह नेगी, डाइवर ग्रेड-II, राजस्व आसूचना निदेशालय (मुख्यालय), नई दिल्ली ।

2. ये पुरस्कार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I खंड I में यथाप्रकाशित और समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना संख्या 12/139/59-प्रशा. III(ख), दिनांक 5 नवंबर, 1962 के अनुसार सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करने को अभिशप्तित करने वाली योजना के पैरा I के खंड (क) (ii) के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं ।

निजी सचिव :

ऋषि मोहन यादव, अवर सचिव

25. सुश्री जी. पी. पद्मा सुंदरी, निजी सचिव, राजस्व आसूचना निदेशालय, बेंगलूरु जोनल यूनिट, बेंगलूरु ।

निरीक्षक/आसूचना अधिकारी/उप कार्यालय अधीक्षक :

26. श्री नूकल बाला सुब्रह्मण्यम, आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय, हैदराबाद क्षेत्रीय यूनिट, हैदराबाद ।
27. श्री वेदांतम श्रीनिवास, निरीक्षक, सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपर महानिदेशक (लेखापरीक्षा) का कार्यालय हैदराबाद जोनल यूनिट, हैदराबाद ।
28. श्री राजीव कुमार सदाना, आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय (मुख्यालय), नई दिल्ली ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2013

No. 07/2013 (N.T.)

F. No. 394/121/2012-Cus. (AS) pt.II.—The President is pleased to award an Appreciation Certificate for—‘Specially distinguished record of service’—to each of the under mentioned officers of the Customs and

Central Excise Department, and the Directorate of Enforcement on the occasion of Republic Day, 2013 :—

**COMMISSIONERS:**

1. Shri Atul Dikshit, Additional Director General, Directorate of Systems, New Delhi.

**ADDITIONAL COMMISSIONERS/ADDITIONAL DIRECTORS/JOINT COMMISSIONERS/JOINT DIRECTORS:**

2. Shri Mannem Raghu Rami Reddy, Additional Commissioner, Commissionerate of Service Tax-I, Mumbai.
3. Shri Ganesh Dutt Lohani, Director, Legal Wing, Central Board of Excise and Customs, New Delhi.
4. Shri Sunil Kumar Sinha, Director, Judicial and Review Wing, Central Board of Excise and Customs, New Delhi.
5. Shri Rajesh Kumar Mishra, Additional Commissioner, Commissionerate of Central Excise, Jaipur—I, Jaipur.
6. Mrs. Limatula Yaden, Additional Commissioner, on deputation as Director to the Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.

**DEPUTY DIRECTORS/DEPUTY COMMISSIONERS/ ASSISTANT DIRECTORS/ASSISTANT COMMISSIONERS:**

7. Shri Rajesh Kumar Agarwal, Deputy Commissioner, working as Officer on Special Duty, Drawback Wing, Central Board of Excise and Customs, New Delhi.
8. Shri Vinod Kumar Agarwal, Deputy Commissioner/working as Officer on Special Duty, Drawback Wing, Central Board of Excise and Customs, New Delhi.
9. Shri Ashwini Kumar, Deputy Director, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, Mumbai.
10. Shri Jagat Singh Tonk, Deputy Commissioner, Commissionerate of Customs (Preventive), New Delhi.
11. Shri Jaswant Kumar Higgins, Assistant Commissioner, Inland Container Depot, Loni, Commissionerate of Customs, Central Excise and Service Tax, Ghaziabad, Meerut Zone.

**APPRAISERS/SUPERINTENDENTS/SENIOR INTELLIGENCE/OFFICERS/ENFORCEMENT OFFICERS:**

12. Shri Narm Deshwar Azad, Superintendent, Regional Training Institute, National Academy of Customs Excise and Narcotics (NACEN), New Delhi.

13. Shri Somnath Chaudhary, Senior Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence, Ahmedabad Zonal Unit, Ahmedabad.
14. Shri Diwakar Shrikrishna Mehta, Senior Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, Mumbai.
15. Shri Anil Kumar Sinha, Superintendent, Directorate General of Systems, New Delhi.
16. Shri A. Jebastin, Senior Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence, Chennai Zonal Unit, Chennai.
17. Shri Satya Bir Singh, Senior Intelligence Officer, Directorate General of Central Excise Intelligence (Hqrs.), New Delhi.
18. Shri Ashutosh Nivsarkar, Superintendent, Commissionerate of Central Excise, Indore.
19. Shri Rakesh Gupta, Senior Intelligence Officer, Directorate General of Central Excise Intelligence, Delhi Zonal Unit, New Delhi.
20. Shri Pawan Kumar, Senior Intelligence Officer, Directorate General of Central Excise Intelligence, Delhi Zonal Unit, New Delhi.
21. Shri P. Muralidharan, Superintendent, Large Taxpayers Unit, Bengaluru.
22. Shri K. S. S. Janardhana Rao, Senior Intelligence Officer, Directorate General of Central Excise Intelligence, Regional Unit, Hyderabad.
23. Shri Sarwan singh, Senior Intelligence Officer, Directorate General of Central Excise Intelligence (Hqrs.), New Delhi.
24. Shri Tashi Tshering Wangdi, Superintendent (OPS), Directorate of Logistics, working in Anti-Smuggling Unit, Central Board of Excise and Customs, New Delhi.

**PRIVATE SECRETARY**

25. Ms. G. P. Padma Sundari, Private Secretary, Directorate of Revenue Intelligence, Bengaluru Zonal Unit, Bengaluru.

**INSPECTORS/INTELLIGENCE OFFICERS/ DEPUTY OFFICE SUPERINTENDENT:**

26. Shri Nukala Bala Subrahmanyam, Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence, Hyderabad Regional Unit, Hyderabad.
27. Shri Vedantham Srinivas, Inspector, Customs and Central Excise, Office of the Additional Director General (Audit), Hyderabad Zonal Unit, Hyderabad.
28. Shri Rajeev Kumar Sadana, Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence (Hqrs.), New Delhi.

29. Shri Inderjit Singh Sahni, Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence (Hqrs.), New Delhi.
  30. Shri Sandip Das, Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence, Kolkata Zonal Unit, Kolkata.
  31. Shri S. Varadharajan, Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, Mumbai.
  32. Shri Vinod Kumar Sharma, Intelligence Officer, Directorate General of Central Excise Intelligence, Delhi Zonal Unit, New Delhi.
  33. Shri M. N. Thyagaraj, Enforcement Officer, Directorate of Enforcement, Bengaluru Zonal Office, Bengaluru.
  34. Shri Ajit Kumar Karthikeyan, Intelligence Officer, Directorate General of Central Excise Intelligence, Regional Unit, Pune.
  35. Shri Purshottam Das Lalwani, Deputy Office Superintendent, Commissionerate of Central Excise, Jaipur—I, Jaipur.
  36. Shri Ajaya Kumar K. P., Intelligence Officer, Directorate General of Central Excise Intelligence, Regional Unit, Kochi.
- DRIVERS:**
37. Shri Virender Singh Negi, Driver Grade-II, Directorate of Revenue Intelligence (Hqrs.), New Delhi.
2. These awards are made under clause (a) (ii) of Para 1 of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs and Central Excise Department, Central Bureau of Narcotics, Narcotics Control Bureau and Directorate of Enforcement, as published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, Notification No. 12/139/59/-Ad.III (B), dated 5th November, 1962, as amended from time to time.

RISHI MOHAN YADAV, Under Secy.